



आपनी सुरक्षा का जो रखी खयाल, रखें सुरक्षित जान और आला



घर पर आग से सुरक्षा

रसोई में :

- खाना पकाने के बाद सिलेन्डर का नॉब बन्द करना न भूलें।
- गैस का चूल्हा लाइटर से ही जलाएँ।
- अतिरिक्त सिलेन्डर खुले स्थान पर रखें।
- गैस सिलेन्डर से होने वाले रिसाव पर फौरन ध्यान दें।
- गैस सिलेन्डर से रिसाव होने पर विद्युत उपकरण के स्विच बन्द कर दें, खिड़कियाँ खोल दें व माचिस न जलाएँ।
- जलती माचिस रसोई में इधर-उधर न फेंकें।
- खाना बनाते समय रसोई में ही रहें।
- खाना बनाते समय गर्म बर्तन हमेशा सनसी से पकड़ कर ही उतारें।
- जलते व गर्म स्टोव में तेल न डालें।

विद्युत उपकरणों के साथ: -

- विद्युत उपकरणों में हमेशा उपयुक्त प्लग/साकेट/तार का प्रयोग करें।
- तारों पर अतिरिक्त लोड न डालें।
- प्रयोग में न होने पर विद्युत उपकरणों के प्लग को स्विच बोर्ड से निकाल दें।
- विद्युत उपकरण में स्मॉकिंग या अन्य समस्या होने पर उसे जानकार व्यक्ति से ही ठीक करवाएँ।
- हीटर को कपड़ों, परदों, आदि से कम से कम 3 फुट की दूरी पर रखें।
- जलता हीटर, प्रैस, आदि जलता छोड़कर बाहर न जाएँ।
- बिजली से लगी आग को पानी से न बुझाएँ।

बच्चों के साथ: -

- बच्चों को आग से न खेलने दें।
- माचिस, मोमबत्ती, आदि बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
- बच्चों को अकेले पटाखे न चलाने दें।
- बच्चों को आग, हीटर, आदि के पास अकेला छोड़कर न जाएँ।
- बच्चों को आग से सावधानी के बारे में बताएँ।

अन्य: -

- बिस्तर में सिगरेट न पिएँ।
- सिगरेट पीते समय ऐशट्रे साथ में रखें व ध्यान दें की ऐशट्रे में सिगरेट ठीक से बुझ गई हो।
- पूजा का दिया सावधानी पूर्वक जलाएँ व सुरक्षित स्थान पर रखें।
- घर पर अग्निशमन यन्त्र रखें व इसकी प्रयोग विधि घर के सभी सदस्यों को सिखाएँ।
- घर पर फायर अलार्म लगावाएँ व इसके बजने पर तुरन्त ध्यान दें।
- आग लगने पर घर से बाहर निकलने की योजना पहले से ही तैयार करके रखें व इसकी चर्चा परिवार के सभी सदस्यों के साथ करें।
- अपने सभी जरूरी कागजात का विवरण किसी सुरक्षित स्थान पर रखें जैसे इन्टरनेट पर, या 2-3 अलग-अलग स्थानों पर कॉपी करके।
- परिवार के सभी सदस्यों को जलने के प्राथमिक उपचार की जानकारी दें।

आग लगने पर: -

- आग लगने पर पहले अपनी जान बचाएँ, समान आदि बचाना घातक हो सकता है।
- शरीर के किसी अंग में आग लगने पर दौड़ने के बजाय जमीन पर लेट कर पलटें ताकि आग बुझ जाये।
- आग लगने पर खड़े न हों। जमीन पर घुटने के बल चलें।
- आग लगने पर 101 पर फोन करके नजदीकी फायर स्टेशन से सम्पर्क करें।

आयुक्त,

नगर निगम शिमला

भारत सरकार - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नगरीय जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत,
नगर निगम शिमला द्वारा जनहित में जारी।